



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21—जनवरी 27, 2006 (माघ 1, 1927)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21—JANUARY 27, 2006 (MAGHA 1, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. ए. 22017/1/2005-पीएमए--वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति पर केबिनेट सचिवालय में नामांकन किए जाने के फलस्वरूप श्री डी. बालानुजन, प्रमुख निजी सचिव (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा) ने दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 (अपराह्न) से प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

कमल दयानी, निदेशक

नई दिल्ली-110011, दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. जी.एफ.627/पीएमए--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक श्रीमती विनी महाजन को प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित सभी मामलों के बारे में

दिनांक 2.1.2006 से 6.1.2006 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

राजेन्द्र शर्मा, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. ए-12025/17/2004-प्रशासन-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/2/2005-ई.ओ. (एम.एम.-1) के अनुपालन में श्री एस. के. साहा, आई.आर.एस.ई.ई. (90) ने दिनांक 02.01.2006 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर योजना आयोग में उप सचिव का पदभार संभाल लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

सं. ए-12023/10/97-वि.सा.प्र.(प्र.)--राष्ट्रपति, श्रीमती सुनीता आनंद, अधीक्षक (विधि) को विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में तारीख 19 दिसंबर, 2005 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर सहायक संपादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. दास., उप सचिव

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2005

सं. ए-12034/1/2004-प्रशा. IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री बी. बी. जैन के दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने पर उन्हें दिनांक 01 जनवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक रु. 14,300-400-18,300/- (निदेशक स्तर) के वेतनमान में माननीय विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री बी. बी. जैन की यह नियुक्ति श्री हंसराज भारद्वाज, माननीय विधि और न्याय मंत्री के प्रसाद पर्यन्त और उनके कार्यकाल की सहवर्ती है।

अ. कु. धवन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसंबर 2005

सं. ए-38014/5/2005-प्रशा.-IV (वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, विधि कार्य विभाग में संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार श्री ए. पी. अग्रवाल, दिनांक 30 नवम्बर 2005 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

यशवंत सिंह, उप सचिव

सं. ए-38014/6/2005-प्रशा.-IV (वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, विधि कार्य विभाग में संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार श्री एम. एल. गनवीर, दिनांक 30 नवम्बर 2005 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

यशवंत सिंह, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 दिसम्बर 2005

सं. के. 11019/1/2005-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिविकम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री विनोद कुमार राय के अवकाश पर चले जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति के दौरान, सिविकम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री एन. सूरजमणि सिंह को दिनांक 04.12.2005 से 10.12.2005 (दोनों दिन शामिल हैं) तक सिविकम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डा. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 13024/2/2005-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; (i) श्री कृष्णसामि नायकर मोहनराम, (ii) श्री पलनिचामि ज्योतिमणि, (iii) श्री राजु रेगुपति, (iv) श्रीमती चित्रा वैकटरामन्, (v) श्री कमालुदीन नजीरुल्ला बाषा, (vi) श्री पूसपाडि पेरुमाल सुब्बाराजा जनारदन राजा, (vii) श्री नारायणन नाडार पाल वसन्दकुमार, (viii) कुमारी करुप्पैया सुगुणा, (ix) श्री मुत्तुसामी जेयचन्द्रन, (x) श्री गुड्डा गणियन राजेस्वरन, (xi) श्री वेल्दु दनपालन और (xii) श्री रामलिंगम् सुधाकर, को उसी वरीयता क्रम में, अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जे. ए. के. सम्पत् कुमार को भी अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 6 मई, 2007 तक मद्रास उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री ए. सी. आरुमुगपेरुमाल आदित्यन, (ii) श्री पी. मुरगेशन, (iii) श्री सबापति तमिलवाणन और (iv) श्री मुद्रासि जेयपाल को भी उसी वरीयता क्रम में, अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डा. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 दिसम्बर 2005

सं. 14016/33/2002-यू.टी.एस.-II--इस मंत्रालय की दिनांक 25 नवम्बर, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में, गृह

मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) ने डीएनआईपीएस के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री वैभव बजाज का तकनीकी त्यागपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया है ताकि वह अपनी

मूल सेवा, अर्थात् सीमा शुल्क मूल्य निरूपक (गैर-कुशल सीधी भर्ती) में वापस जा सकें।

विक्रम देव दत्त, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. ए-32013/08/2005-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित स्थाई अनुभाग अधिकारियों को जो गृह मंत्रालय एवं इसकी संवर्ग इकाईयों में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में नियमित आधार पर नीचे दिए विवरण अनुसार नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में दर्शाए अनुसार के. म. से. के ग्रेड-1 की वरिष्ठता	के. स. से. के ग्रेड-1 में नियुक्ति की मान्य तिथि	वर्तमान तैनाती
चयन सूची 1997				
सर्वश्री				
1.	मोती लाल	10	01.07.1997	राजभाषा विभाग
2.	रजनीश टिंगल	12	01.07.1997	गृह मंत्रालय
3.	संजीव कुमार जिंदल	14	01.07.1997	गृह मंत्रालय
4.	एस. रमणन	52	01.07.1997	राजभाषा विभाग
5.	रमेश कुमार	57	01.07.1997	गृह मंत्रालय
6.	दया नन्द कटारिया	59	01.07.1997	गृह मंत्रालय
चयन सूची 1998				
7.	शिशू द्विवक्ली	11	01.07.1998	न्याय विभाग
चयन सूची 1999				
8.	सुश्री रूपाली बनर्जी सिंह	2	01.07.1999	गृह मंत्रालय
9.	इन्द्रजीत सिंदवानी	29	01.07.1999	गृह मंत्रालय
चयन सूची 2000				
10.	गिरिजा नन्द सिंह	14	01.07.2000	गृह मंत्रालय
11.	सुरेन्द्र पाल सिंह	16	01.07.2000	गृह मंत्रालय
12.	दिवाकर मदान	28	01.07.2000	गृह मंत्रालय
13.	ओम प्रकाश शर्मा	51	01.07.2000	गृह मंत्रालय
14.	मुनीश कुमार गिरधर	53	01.07.2000	गृह मंत्रालय
15.	सुभाष चन्द्र शर्मा	62	01.07.2000	गृह मंत्रालय
16.	जगदीश चन्द्र बैन	65	01.07.2000	गृह मंत्रालय

2. उक्त चारों चयन सूचियों के उपरोक्त अधिकारियों की अवर सचिव के पद पर नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री आर. के. ओझा तथा सुश्री प्रीति श्रीवास्तव द्वारा भारत संघ एवं अन्य के विरुद्ध दायर सिविल रिट याचिका के अंतिक निर्णय के अधधीन होगी।

3. उपरोक्त नियुक्तियां अनुमोदित सेवा तथा अवर सचिव के रूप में उनके नोशनल वेतन निर्धारण के लिए क्रमशः 01.07.1997, 01.07.1998, 01.07.1999 तथा 01.07.2000 से मान्य होंगी। यद्यपि, वास्तविक लाभ अधिकारियों के अवर सचिव के पद पर नियुक्ति की तिथि से देय होगा।

4. अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से आदेशित अवर सचिव के पद पर नियुक्ति की वास्तविक तिथि से वेतन पुनर्निर्धारित होने पर एरियर्स के हकदार होंगे। इसके साथ, ये अधिकारी मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के हकदार होंगे। तथापि, ऐसे अधिकारी जो उनकी चयन सूची की 1 जुलाई से पूर्व तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में पदोन्नत हुए थे एवं विकल्प का लाभ लिया था, वे विकल्प को फिर से प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे। विकल्प इन आदेशों के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

5. संदर्भ कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 4.10.2003-सीएस.1 दिनांक 14.11.2005.

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. 24014/34/99-आई पी एस-II--राष्ट्रपति, श्री अतुल सिंह, आई पी एस (एन एल : 98) द्वारा भारतीय पुलिस सेवा से बिना शर्त दिए गए त्यागपत्र को दिनांक 11.11.2005 के पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं।

2. श्री अतुल सिंह, आई पी एस (एन एल : 98) को भारतीय पुलिस सेवा से उपरोक्त तारीख से कार्यमुक्त किया जाता है।

वाई. पी. ढींगरा, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2005

सं. 1-14013/8/2004-आई पी एस-I--श्री अजायब सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21617/2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25.10.2005 के आदेश के अनुपालन में संघ लोक सेवा आयोग ने 6.1.2005 को पुनरीक्षा चयन समिति, जिसने वर्ष 1999 एवं 2000 के श्री अजायब सिंह की भारतीय पुलिस सेवा के पंजाब संवर्ग में पदोन्नति के मामले पर विचार करने के लिए 31.10.2005 को बैठक की थी, की निम्नलिखित सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया है।

चयन सूची-1999

चयन समिति, जिसकी बैठक 25.1.2002 को हुई, की सिफारिशों में कोई परिवर्तन नहीं।

श्री सुखमोहिंदर सिंह, जिन्हें 1999 की चयन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया था, को बाद में 1999 की चयन सूची में बिना शर्त शामिल कर लिया गया तथा उन्हें 30.9.2005 की अधिसूचना के तहत भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया।

चयन सूची-2000

इस पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप पंजाब संवर्ग की भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए आयोग द्वारा 4.4.2002 को अनुमोदित वर्ष 2000 की चयन सूची में निम्न प्रकार संशोधन किया जाएगा :--

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
0*	सुखमोहिंदर सिंह	22.09.1946
1.	हरिन्दर सिंह चहल	01.02.1951
2.	सुरिन्दर पाल सिंह	14.10.1949
2क@	अजायब सिंह	14.10.1947
3.	लोक नाथ	15.08.1957

* क्रम सं. 0 पर उल्लिखित अधिकारी, जिनका नाम वर्ष 1999 और 2000 की चयन सूचियों में अनंतिम रूप से शामिल किया गया था, को अब बिना शर्त उक्त चयन सूचियों में शामिल कर लिया गया है तथा अब उन्हें अंतिम रूप से भारतीय पुलिस सेवा में 1999 की चयन सूची के आधार पर नियुक्त कर दिया गया है। तथापि यहां उन्हें वर्ष 2000 की चयन सूची में भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में दिनांक 25.07.2000 को किए गए संशोधन के अनुसार चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है क्योंकि 1999 की मूल चयन सूची को तैयार किए जाते समय वे उस सूची में अनंतिम रूप से शामिल थे।

@ क्रम सं. 2 पर उल्लिखित अधिकारी को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले के निपटान के अधधीन चयन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

यदि क्रम सं. 2क पर उल्लिखित अधिकारी को चयन सूची की विधि मान्य अवधि के अंदर भारतीय पुलिस सेवा में वास्तविक रूप से नियुक्त किया जाता है तो उनका समायोजन वर्ष 2000 की चयन सूची में केवल भूतलक्षी प्रभाव से एक अधिसंख्य पद का सृजन करके किया जाएगा।

इसके द्वारा इस मंत्रालय कि दिनांक 9.4.2002 की अधिसूचना सं. I-14011/18/2001-आईपीएस-I का आंशिक रूप से संशोधन किया जाता है।

वाई. पी. ढींगरा, अवर सचिव

सं. आई-14011/8/2004-आई.पी.एस.-1--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में नीति उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 06.01.2006 को चयन समिति की दिनांक 17.12.2004 को आयोजित मूल बैठक एवं दिनांक 11.11.2005 को आयोजित पुनः बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2004 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडु संवर्ग में वर्ष 2004 में एक मौलिक रिक्ति को भरे जाने हेतु तमिलनाडु राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारी का नाम शामिल किया गया है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	जे. भास्करन	16.06.1959

वाई. पी. ढोंगरा, अवर सचिव

सं. आई-14011/8/2004-आई.पी.एस.-1--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत तमिलनाडु संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

चयन सूची-2004

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	जे. भास्करन	16.06.1959

वाई. पी. ढोंगरा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2005

सं. ए.32013/1/2005-प्रशा.-I (जी)--राष्ट्रपति, श्री सी. ए. सुब्रमणियन, सी.एस.एस. को दिनांक 5 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. ए.32013/3/2006-प्रशा.-I (जी)--राष्ट्रपति, श्री प्रत्युष सिन्हा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 69) को 03 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न

से अगले आदेशों तक, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए.12026/1/2004-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के वरिष्ठ अनुवादक श्री राजेश तनेजा को 23 दिसम्बर, 2005 पूर्वाह्न से 6 मास की अवधि के लिए अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, इस विभाग में 7500-250-12000/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. 23012/04/2005-अ.भा.से.(III)--वर्ष 2000 में हुई सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त और मूल रूप से आन्ध्र प्रदेश संवर्ग की सुश्री स्मिता दास को उनका नाम सुश्री स्मिता दास से सुश्री स्मिता सभरवाल करने की अनुमति दी जाती है। सुश्री स्मिता दास को तदनुसार सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए सुश्री स्मिता सभरवाल के रूप में जाना जाएगा।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2006

शुद्धि-पत्र

सं. 14015/25/2001-अ.भा.से.(I)--इस विभाग के दिनांक 16 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं.-14015/25/2001-अ.भा.से.(I)-क के क्रम संख्या-2 पर उल्लिखित श्री सी. एन. दलवी की जन्म तिथि 18 मार्च, 1957 के स्थान पर 18 मार्च, 1958 पढ़ा जाए।

जगन लाल, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

सं. 2005 की सं. : (फा.सं. ए-19013/3/2003-प्रशा. I क)--व्यय विभाग, संवर्ग प्रशासन अनुभाग के दिनांक 15.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32022/2/2004-सी.ए.एस. के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव श्री आर. के. मसंद को राजस्व विभाग में दिनांक 12.12.2005 से 30.6.2006 तक अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक, अथवा अगला आदेश होने तक,

इनमें से जो भी पहले हो, 12000--16500/- रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद में श्री आर. के. भसंद की तदर्थ पदोन्नति उन्हें अनिश्चित रूप से पद में बने रहने अथवा वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में किसी वरियता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

आर. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. ए-12011/23/2005-प्रशा.2--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.12.2005 के कार्यालय आदेश से. 5/21/2005-सीएस-2 के अनुसरण में राष्ट्रपति, निम्नलिखित निजी सचिवों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 10000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 26.12.2005 (पूर्वाह्न) से 30.6.2006 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं :-

1. श्री ज्ञान चन्द
2. श्री पी. जे. थामस

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई दावा अथवा अनिश्चित काल तक बने रहने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवा की गणना उस ग्रेड में वरिष्ठता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजन हेतु नहीं की जाएगी और जब कभी चयन-सूची के व्यक्ति उपलब्ध होंगे उन्हें पदावनत कर दिया जाएगा।

वी. राम कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12011/23/2005-प्रशा.2--राष्ट्रपति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव श्री आर. प्रदीप कुमार को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 26.12.2005 के पूर्वाह्न से 30.6.2006 तक की अवधि के लिए अथवा पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का

कोई दावा अथवा अनिश्चित काल तक बने रहने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवा की गणना उस ग्रेड में वरिष्ठता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजन हेतु नहीं की जाएगी और जब कभी चयन-सूची के व्यक्ति उपलब्ध होंगे उन्हें पदावनत कर दिया जाएगा।

वी. राम कुमार, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2005

सं. ए-19011/255/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित प्रधान निजी सचिव श्री डी. पी. सहरावत को तदर्थ आधार पर 10 अक्टूबर, 2005 से 31.12.2005 तक की अवधि के लिए अथवा पद के भरे जाने तक अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री डी. पी. सहरावत की पदोन्नति वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और उन्हें अनिश्चित समय के लिए पद में बने रहने अथवा वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. ए-32013/1/2005-प्रशा.11--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक में कार्यरत श्री ए. के. कपूर, वरिष्ठ विश्लेषक को दिनांक 23.12.2005 की पूर्वाह्न से 12,000-16,500/- रुपए के वेतनमान में अगले आदेशों तक नियमित पदोन्नति आधार पर संयुक्त निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2005

सं. 1(11)/2004-विस्फोटक--राष्ट्रपति, निम्नलिखित विस्फोटक नियंत्रकों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई तिथि से तथा आगामी आदेशों तक 12000-375-16500/- रुपए के वेतनमान पर नियमित

आधार पर पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन में उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
	(सर्व/श्री)	
1.	टी. आर. थॉमस	07.01.2004
2.	डी. विजयन	23.03.2004
3.	एस. सरगुनारमन	07.01.2004
4.	एस. भट्टाचार्य	07.01.2004
5.	एस. सी. मैती	07.01.2004
6.	ए. बी. सुब्बाराव	07.01.2004
7.	पी. के. मुखोपाध्याय	07.01.2004
8.	पी. सी. श्रीवास्तव	07.01.2004
9.	ए. भट्टाचार्य	07.01.2004
10.	ए. लोगानाथन	11.02.2004
11.	पी. एम. भेले	07.01.2004
12.	शम्भू प्रसाद	07.01.2004
13.	जे. त्रिपाठी	07.01.2004
14.	कैलाश कुमार	07.01.2004
15.	आर. सी. कौल	07.01.2004
16.	एस. कमल	19.03.2004
17.	डी. जे. रॉय	07.01.2004
18.	जी. एम. रेड्डी	07.01.2004
19.	बी. रेंगासामी	06.02.2004
20.	अनूप कुमार	07.01.2004
21.	एस. सेन	16.11.2005

जय सिंह, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2006

सं. ए-19011/8/2002-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री एम. एस. श्रीनिवासन, भा. प्र. से. (तमिलनाडु : 71), जो वर्तमान में इस मंत्रालय में विशेष सचिव हैं, को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 1 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रवि कपूर, निदेशक

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2006

सं. 12/6/2004-एसओ--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री पी. सी. पारख, भा. प्र. से. (आन्ध्र प्रदेश : 69) 31 दिसम्बर, 2005 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। श्री पी. सी. पारख ने 31.12.2005 (अपराह्न) से कोयला मंत्रालय के सचिव के पद का कार्य-भार त्याग दिया है।

ए. के. ज्योतिषी, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

सं. ए-32022/02/2005-प्रशा.1(ए)--इस विभाग की दिनांक 12 जुलाई, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में 1 जनवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो पहले हो, सहर्ष नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं :--

1. श्रीमती मधु बाला मेहरोत्रा
2. श्री एस. पी. चौधरी
3. श्री एम. आर. रोहिला
4. श्री आर. एन. धन्जल (डीबीटी)
5. श्री रामजी लाल
6. श्री लक्ष्मण राम

2. यह तदर्थ नियुक्ति उसी ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए जारी रखने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित करने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. ए-32011/03/03-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, श्री सूर्य प्रकाश, अनु-भाग अधिकारी को अधिवर्षिता की आयु पर पहुंचने पर 31 दिसम्बर, 2005 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. ए-38018/02/2004-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री सुरेश चन्द्र निस्तेन्द्र, वैज्ञानिक "जी", वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को 31.12.2005 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

श्रीनिवास प्रधान, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 दिसम्बर 2005

सं. ए-19011/33/2004-भा.व.से.-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के एजीएमयूटी संवर्ग के 1977 के बैच के अधिकारी श्री आर. के. गोयल, को 24 अक्टूबर, 2005 के अपराह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में अपर निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 दिसम्बर 2005

सं. ए-19011/14/98-भा.व.सेवा-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के एजीएमयूटी संवर्ग के 1992 के बैच के अधिकारी श्री जे. पी. मिश्रा, को 19 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए और अगला आदेश होने तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सहायक वन महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

सं. ए-12025/2/2005-स्थापना-III--इस मंत्रालय के दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 के समसंख्यक आदेश के अनुसरण में श्री बी. जी. शर्मा, उप-सम्पादक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मंत्रालय में 21 दिसम्बर, 2005 पूर्वाह्न से नियमित पदोन्नति के आधार पर 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में सहायक सम्पादक (अंग्रेजी) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2005

सं. ए-31013/4/2005-सी.एच.एस.-V--राष्ट्रपति, डा. नलिनी, सहायक प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान को 19.07.2003 से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड में मूल रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. के. चक्रवर्ती, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

सं. ए-12025/215/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. कार्तिकेयन पी. को 18.7.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. कार्तिकेयन पी. को पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम (तमिलनाडु) के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. ए-12025/181/04-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. प्रफुल्ल चन्द्र प्रभाकर को 12.07.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. प्रफुल्ल चन्द्र प्रभाकर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. ए-12025/137/94-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. नरेन्द्र कुमार को 21 सितम्बर, 1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-75-2800-द.रो.-100-4000/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. नरेन्द्र कुमार को श्रम मंत्रालय (श्रम कल्याण संगठन, भीलवाड़ा क्षेत्र, राजस्थान) के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2006

सं. ए-32012/1/2005-सी.एच.एस.-I--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर अपनी पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप संबंधित संगठनों से उनके संबंधित नामों के सामने लिखी गई तारीख से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	संगठन	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ने की तारीख	मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	डा. प्रशांत सिंह	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	21.9.03 (पूर्वाह्न)	21.9.03 (पूर्वाह्न)
2.	डा. शिवराज सिंह	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	21.9.03 (पूर्वाह्न)	21.9.03 (पूर्वाह्न)
3.	डा. सुधीर प्रसाद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	21.9.03 (पूर्वाह्न)	21.9.03 (पूर्वाह्न)
4.	डा. (सुश्री) सुष्मा मुरिया	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	21.9.03 (पूर्वाह्न)	21.9.03 (पूर्वाह्न)
5.	डा. सतीश चंद्र	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	21.9.03 (पूर्वाह्न)	21.9.03 (पूर्वाह्न)
6.	डा. राज मोहन त्रिवेदी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	21.9.03 (पूर्वाह्न)	21.9.03 (पूर्वाह्न)
7.	डा. सुरेन्द्र सिंह	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	21.9.03 (पूर्वाह्न)	21.9.03 (पूर्वाह्न)
8.	डा. श्रीमती मंजू अत्रेय	सी.जी.एच.एस., दिल्ली	20.9.03 (अपराह्न)	21.9.03 (पूर्वाह्न)

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए-32012/2/2005-सी.एच.एस.-I--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर अपनी पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप संबंधित संगठनों से उनके संबंधित नामों के सामने लिखी गई तारीख से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	संगठन	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ने की तारीख	मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	डा. (श्रीमती) ज्योत्सना भारती	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	20.7.04 (पूर्वाह्न)	20.7.04 (पूर्वाह्न)
2.	डा. (श्रीमती) सुमन सिंघल विवाहपूर्व गोयल	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	20.7.04 (पूर्वाह्न)	20.7.04 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4	5
3.	डा. शेर बहादुर जंगपंगी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	4.9.04 (पूर्वाह)	4.9.04 (पूर्वाह)
4.	डा. (सुश्री) जैड एस. के. भारक	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	1.9.04 (पूर्वाह)	1.9.04 (पूर्वाह)
5.	डा. हरि कृष्ण सेनसुआ	सी.जी.एच.एस., दिल्ली	24.7.04 (पूर्वाह)	24.7.04 (पूर्वाह)
6.	डा. अमित सूरी	सी.जी.एच.एस., दिल्ली	20.7.04 (पूर्वाह)	20.7.04 (पूर्वाह)
7.	डा. प्रसांतु वी. तैजरला	सी.जी.एच.एस., दिल्ली	20.7.04 (पूर्वाह)	20.7.04 (पूर्वाह)
8.	डा. (श्रीमती) अनामिता चटर्जी	सी.जी.एच.एस., दिल्ली	19.7.04 (अपराह)	20.7.04 (पूर्वाह)
9.	डा. (श्रीमती) दीपिका सचदेवा	सी.जी.एच.एस., दिल्ली	20.7.04 (पूर्वाह)	20.7.04 (पूर्वाह)
10.	डा. अनिल चौधरी	राम मनोहर लोहिया अस्पताल	21.9.03 (पूर्वाह)	21.9.03 (पूर्वाह)
11.	डा. (श्रीमती) स्नेह जयंत	राम मनोहर लोहिया अस्पताल	20.7.04 (पूर्वाह)	20.7.04 (पूर्वाह)

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए.-12025/155/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. राम प्रताप बेनीवाल को 7 जुलाई, 2005 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. ए.-38012/5/2005-प्रशासन-I--सेवा-निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री शिव भगवान, निदेशक प्रशासन दिनांक 31.12.2005 के अपराह से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

मोहन लाल, उप निदेशक प्रशासन (एम. एल.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2005

सं. 27-2626/2005-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, आई.आई.एस. (85) को 30.11.2005 के पूर्वाह से 5 वर्षों की अवधि के

लिए या आगामी आदेशों तक, इसमें जो पहले हो, कृषि एवं सहकारिता विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजयकुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. 12023/10/2000-स्था.-V--राष्ट्रपति, सी सी एस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक (बागवानी) डा. शशि कुमार भाटिया को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 1.12.2005 (पूर्वाह) से दो वर्ष या आगामी आदेशों तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में अपर आयुक्त (बागवानी-फल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजयकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2005

सं. 12022/11/2005-स्था.-1--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के संवर्ग के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों की तदर्थ नियुक्ति की अवधि 1.1.2006 से 30.6.2006 तक या नियमित प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होने तक या आगामी आदेशों तक, इसमें जो पहले हो, बढ़ाते हैं :-

1. श्री सुनील कुमार कथूरिया
2. श्री सतीष कुमार गुप्ता

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर उक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति को जारी रखना पूर्णतया तदर्थ है तथा इससे उनको पद पर अनिश्चित रूप से बने रहने या के.स.आ.से. के प्र.नि.स. के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

के. डी. उप्रेती, उप सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2006

सं. 19011/427/2005-स्था.-II--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर लेने पर श्री बाबू राम, नियमित सहायक निदेशक (खाद) जो कृषि एवं सहकारिता विभाग में तदर्थ आधार पर सहायक आयुक्त (आई एन एम) के पद पर कार्यरत हैं, 31.12.2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

के. डी. उप्रेती, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. ए.-19012/6/2005-ईए-1--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) अधिकारी, डा. एस. एम. झारवाल को दिनांक 11 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

सं. ए.-19012/7/2005-ईए-1--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) अधिकारी, श्री आर. विश्वनाथन को दिनांक 11 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

(पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

सं. ए. 12025/6/99-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, डा. प्रेमान्शु दन्दपत को संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग में 21 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में सहायक आयुक्त (पशु संगरोध) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2005

सं. ए-18011/72/2005-स्था.--राष्ट्रपति, श्री राज पाल (भा. आ. से. : 1986) को लघु उद्योग मंत्रालय में अगले आदेशों तक दिनांक 14 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. एस. वर्मा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

सं. ए-12022/8/2003-स्थापना--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2003 के परिणाम के आधार पर वर्ष 2003 (विभागीय परीक्षा कोटा) के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल करने की सिफारिश होने तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस मंत्रालय के लिए नामांकित करने पर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में स्थायी सहायक, श्री अमित पंकज (रैंक सं. 27) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिवीय) में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 26 सितम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्री पंकज नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे।

3. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में श्री पंकज की नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री कैलाश चन्दर व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (ग) सं. 13245-60/2005 के परिणाम के अध्वधीन होगी।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 10 नवम्बर 2005

सं. ए-12025(1)/2/2005-स्था.(भाग)--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 23.11.2004 की अधिसूचना सं. ए-12025(1)/2/96-स्था. के अनुक्रम में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रेम प्रभाग में मूल अनुसंधान अधिकारी डा. (सुश्री) मधुमाला चट्टोपाध्याय की नियुक्ति की अवधि को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के उसी प्रभाग में 10000-325-15200/- रुपये के वेतनमान (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित) में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर 9.11.2005 से 8.5.2006 तक की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता के लिए दावा करने हेतु उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

सं. ए-12025(1)/1/95-स्था.(भाग II)--इस मंत्रालय की दिनांक 18 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. ए-12025(1)/1/95-स्था.(भाग I) के अनुक्रम में, राष्ट्रपति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रेम प्रभाग में मूल वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक, श्रीमती पी. राजवंशी की नियुक्ति की अवधि को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के उसी प्रभाग में 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित) में अनुसंधान अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर 31.10.2005 से 30.4.2006 तक की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति अनुसंधान अधिकारी (प्रेम) के पद पर नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता के लिए दावा करने हेतु उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2005

सं. ए-12022/2/2005-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18.10.2005 के का. ज्ञा. सं. 4/8/2005-ई.ओ. (एस.एम.-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री जी. एन. पेगु, भा.प्र.से. (उड़ीसा : 75) को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से उनके पार्ष्वक अन्तरण पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में 24.10.2005 के अपराह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2005

सं. 12034/2/2004-स्थापना (जनजातीय कार्य)--जनजातीय कार्य एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री के निजी सचिव श्री येशी तेशरिंग, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए.एम. : 83) को उनके पद से दिनांक 1.1.2006 (अपराह्न) से निर्मुक्त करने तथा उन्हें दिनांक 02.01.2006 से 21.01.2006 तक छुट्टी प्रदान करने के संबंध में दिनांक 23.12.2005 की समसंख्यक अधिसूचना को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

अनिल कविन्ड्या, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

सं. ए-32014/9/2005-प्रशासन-I--वर्ष 2002 तथा 2003 से संबंधित दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की श्रेणी "क" तथा "ख" (विलयित) की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में नाम शामिल किए जाने पर, राष्ट्रपति इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय

आशुलिपिक सेवा संवर्ग में शामिल निम्नलिखित श्रेणी "ग" के आशुलिपिकों को इसी विभाग में 30.9.2005 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्रेणी "क" और "ख" (विलयित) के रूप में अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

1. श्री रेबाधर छाड़गुली--चयन सूची वर्ष-2002
2. श्री बी. वेनुगोपाल राव--चयन सूची वर्ष-2002
3. श्री एस. अनबरासन--चयन सूची वर्ष-2002
4. श्री गोपी चन्द--चयन सूची वर्ष-2003

2. ये अधिकारी दो वर्षों की अवधि के लिए ट्रायल पर रहेंगे।

टी. कुंदवी, अवर सचिव (प्रशा.-I)

दिनांक 29 नवम्बर 2005

सं. ए-32014/1/2004-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड "ग" के निम्नलिखित आशुलिपिकों को उनके नाम के सामने इंगित किए गए अनुसार 3 माह की अवधि के लिए या नियमित निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित)] के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, दूरसंचार विभाग के संवर्ग में 6500-200-10,500 रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित)] के रूप में कार्य करने की अनुमति देते हैं :-

क्र. सं., अधिकारी का नाम तथा अवधि

1. श्रीमती वीणा वर्मा--01.10.2005 से 31.12.2005 तक
2. श्री आर. के. शर्मा--01.10.2005 से 31.12.2005 तक

2. उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और इस नियुक्ति से अधिकारियों को उक्त ग्रेड [आशुलिपिक ग्रेड में आमेसन या निजी सचिव ग्रेड "क" और "ख" (विलयित)] में वरिष्ठता संबंधी दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

टी. कुंदवी, अवर सचिव (प्रशा.-I)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. 4(362)/88-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', डा. पी. एन. गुप्ता (कर्मचारी कोड सं. 95) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2005 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

सं. 4(378)/88-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'एफ', श्री वी. के. भसीन (कर्मचारी कोड सं. 156) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2005 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

दिनांक 2 जनवरी 2006

सं. 4(5)/2001-कार्मिक-I--इस विभाग की दिनांक 4.1.2005 की समसंख्यक अधिसूचना के सिलसिले में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान (अकृत्यिक) में सहायक सतर्कता अधिकारी श्री विनोद कुमार आहूजा की प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 28.1.2006 से अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, विद्यमान शर्तों एवं निबंधनों पर दो वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दी गई है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जनवरी 2006

सं. 2-3/2002-प्रशा.--राष्ट्रपति, डाक विभाग संवर्ग की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधोलिखित सहायकों को छः मास की अवधि अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तत्काल प्रभाव से 6,500-200-10,500 रुपए के वेतनमान में उसी संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

1. श्रीमती संतोष शर्मा
2. श्री चंदर मोहन
3. श्री प्रेम राज

2. उपर्युक्त नियुक्तियों से उक्त अधिकारियों को नियमित नियुक्ति के लिए दावेदारी नहीं मिलेगी और की गई तदर्थ सेवा को ग्रेड में नियमित करने या वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ नहीं गिना जाएगा।

जी. पी. पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. 3-5/2005-प्रशा.- I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/21/2005-सी.एस. II दिनांक 21.12.2005 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संवर्ग के निजी सचिव श्री आर. के. मंगल को डाक विभाग के सीएसएसएस संवर्ग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में 30.12.2005 (अपराह) से 30.06.2006 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाता है अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के तौर पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

जी. पी. पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2006

सं. 12011/9/2005-अ.ज.प.--केन्द्र सरकार, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, 1985 (1985 का 82) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राहुल सरीन, भा. प्र. से. (झारखण्ड : 1974) को 14.11.2005 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त सचिव की श्रेणी एवं वेतनमान में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

सुशील कुमार, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. ए-19011/1/2006-स्था.--राष्ट्रपति, श्री ए. के. महापात्र, आई. ए. एस. (एच पी : 71) को दिनांक 02.01.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

सं. ए-38012/5/2005-स्था.--पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री डी. टी. जोसफ, आई. ए. एस. (एम एच : 68) अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने के कारण शासकीय सेवा से दिनांक 31.12.2005 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

सं. ए-12021/1/2005-स्था.-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.11.2005 के का. ज्ञा. सं. 4/10/2003-सी एस-I के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) की वर्ष 2000 की चयन सूची में श्री वी. ओ. कोशी का नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एल सं. 3915) के अधिकारी श्री वी. ओ. कोशी, जो इस विभाग में अवर सचिव (स्वस्थाने) के रूप में कार्यरत रहते हुए ही सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी दिनांक 1.7.2000 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-1 में नियुक्ति करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियमित आधार पर नियुक्ति नोशनल आधार पर अवर सचिव के रूप में अनुमोदित सेवा और उनके वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ 1.7.2000 से प्रभावी मानी जाएगी। तथापि, श्री वी. ओ. कोशी

को अवर सचिव के पद पर नियुक्ति की तारीख से ही वास्तविक लाभ उपलब्ध होंगे।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-1 में श्री वी. ओ. कोशी की नियुक्ति श्री आर. के. ओझा और सुश्री प्रीती श्रीवास्तव बनाम भारत सरकार और अन्य तथा भारत सरकार बनाम विजय कुमार और अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अनुसार होगी।

ए. पी. पाढ़ी, अवर सचिव

सं. ए-12021/1/2005-स्था. I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.11.2005 के का. ज्ञा. सं. 4/10/2005-सी एस-1 के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) की वर्ष 1998 की चयन सूची में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड -1 (अवर सचिव) के अधिकारियों की जो सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में अवर सचिव (स्वस्थाने/तदर्थ) के रूप में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-1 में कार्यरत हैं, उनके ग्रेड-1 में नियुक्ति की वास्तविक तारीखों पर विचार किए बिना, वर्ष 1998 की उक्त चयन सूची में उल्लिखित उनकी वरिष्ठता के क्रम में उनकी नियुक्ति करते हैं :-

नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.11.2005 के का. ज्ञा. सं. 4/10/2003-सी एस-1 के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में दी गई वरीयता
श्री आर. के. अग्रवाल (सी एस एल सं. 3325)	1.7.1998	7/1998
श्री एस. के. शर्मा (सी एस एल सं. 3846)	1.7.1998	29/1998

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियमित आधार पर नियुक्ति नेशनल आधार पर अवर सचिव के रूप में अनुमोदित सेवा और उनके वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ 1.7.1998 से प्रभावी मानी जाएगी। तथापि, इन अधिकारियों को अवर सचिव के पद पर नियुक्ति की तारीख से ही वास्तविक लाभ उपलब्ध होंगे।

3. उपर्युक्त अधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय रूप में अवर सचिव के पद पर उनकी वास्तविक नियुक्ति के जारी किए गए आदेश की तारीख से वेतन के पुनर्निर्धारण होने की वजह से बकाया राशि पाने के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, ये अधिकारी एफ आर-22 के प्रावधान के अंतर्गत यथा प्रदत्त उनके वेतन निर्धारण के विकल्प लाभ का उपभोग करने के लिए भी हकदार होंगे। तथापि, ऐसे अधिकारी जो अपने चयन सूची वर्ष की 01 जुलाई से पूर्व तदर्थ अवर सचिव के रूप में पदोन्नत

हुए थे और विभाजित विकल्प का लाभ उठा चुके हैं वे इस विकल्प का पुनः उपयोग करने के लिए हकदार नहीं होंगे।

4. केन्द्रीय सचिवालय सेवा अवर सचिव के ग्रेड-1 के उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति श्री आर. के. ओझा और सुश्री प्रीती श्रीवास्तव बनाम भारत सरकार और अन्य तथा भारत सरकार बनाम विजय कुमार और अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अनुसार होगी।

ए. पी. पाढ़ी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. ए-19011/12/2005-स्था. I--राष्ट्रपति, श्री ए. के. चौधरी (भारतीय आर्थिक सेवा के जूनियर प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी) को दिनांक 09.12.2005 (पूर्वाह्न) से 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उप सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. अग्रवाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. आर. डब्ल्यू/एन.एच.-12012/04/2002-पीआईसी/ई-II (बी)--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 13.09.2004 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में इस विभाग की केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप 'क' के मुख्य इंजीनियर श्री निर्मलजीत सिंह की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सदस्य (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति को दिनांक 31 मार्च, 2006 अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

बी. एन. मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 5 जनवरी 2006

सं. ए-32013/6/2004-स्था.-II--राष्ट्रपति, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, में श्री वी. वेलायूथम, मुख्य अभियंता की अपर महानिदेशक के पद पर तदर्थ नियुक्ति को इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन दिनांक 26.01.2006 के बाद अगले 6 महीनों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

बी. एन. मिश्रा, अवर सचिव

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 02 जनवरी 2006

सं. मवि/वि/44-स्था./142/95--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर डॉ. वी. सम्पत, वैज्ञानिक-जी, महासागर विकास विभाग, 18,400-500-22,400 रु. के वेतनमान में, 31 दिसम्बर 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 30th December 2005

No.A.22017/1/2005-PMA.—Consequent to his nomination to the Cabinet Secretariat on promotion to the grade of Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis, Shri D. Balanujan, Principal Private Secretary (CSSS) has relinquished the charge of the post on the personal staff of Prime Minister with effect from the afternoon of 30 December 2005.

KAMAL DAYANI, Director

New Delhi-110011, the 4th January 2006

No. G.F. 627/PMA.—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Smt. Vini Mahajan, Director in Prime Minister's Office, is designated as Central Public Information Officer for the Period 2.1.2006 to 6.1.2006, in respect of all matters pertaining to Prime Minister's Office.

RAJINDER SHARMA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 4th January 2006

No. A.12025/17/2004-Adm.I.—In pursuance of the Department of Personnel & Training O.M. No. 7/2/2005-EO (MM-I) dated 3rd October, 2005, Shri S. K. Saha, IRSEE (90) has assumed charge of the post of Deputy Secretary in the Planning Commission on central députation basis for a tenure of four years with effect from 02-01-2006 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi-110001, the 19th December 2005

No. A-12023/10/97-VSP(Admn.).—The President is pleased to appoint Smt. Sunita Anand, Superintendent (Legal) to the post of Assistant Editor in Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice for a period of three years with effect from the forenoon of the 19th December, 2005 on transfer on deputation basis.

M. DAS, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 22nd December 2005

No. A-12034/1/2004-Admn.IV(LA).—The President is pleased to appoint Shri B. B. Jain, CSS officer on his retirement from Government service, on 31st December, 2005 as Private Secretary to the Hon'ble Minister of Law and Justice (Shri H. R. Bhardwaj) in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300 (Director level) with effect from the

1st January, 2006 (FN) on co-terminus basis with the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

2. The appointment of Shri B. B. Jain is at the pleasure of, and co-terminous with the tenure of Shri H. R. Bhardwaj as Minister of Law & Justice.

A. K. DHAWAN, Under Secy.

New Delhi, the 26th December 2005

No. A-38014/5/2005-Adm.IV(LA).—On attaining the age of superannuation, Shri A. P. Agrawal, Joint Secretary and Legal Adviser, Department of Legal Affairs stands retired from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2005.

YASHWANT SINGH, Dy. Secy.

No. A-38014/6/2005-Adm.IV(LA).—On attaining the age of superannuation, Shri M. L. Ganvir, Joint Secretary and Legal Adviser, Department of Legal Affairs stands retired from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2005.

YASHWANT SINGH, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 8th December 2005

No. K.11019/1/2005-US.II.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice N. Surjamani Singh, Judge of the Sikkim High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court from 04-12-2005 to 10-12-2005 (both days inclusive) during the absence of Shri Justice B. K. Roy, Chief Justice on leave.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K.13024/2/2005-US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Krishnasamy Naicker Mohan Ram, (ii) Shri Palanichamy Jyothimani, (iii) Shri Raju Regupathi, (iv) Shrimati Chitra Venkataraman, (v) Shri Kamaluddin Nazeerulla Basha, (vi) Shri Pushapadi Perumal Subbraja Janarthana Raja, (vii) Shri Narayanan Nadar Paul Vasanthakumar, (viii) Kumari Karuppiyah Suguna, (ix) Shri Muthusami Jaichandren, (x) Shri Subramanian Rajeswaran, (xi) Shri Velu Dhanapalan, and (xii) Shri Ramalingam Sudhakar, to be Additional Judges of the Madras High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is also pleased to appoint Shri J. A. K. Sampathkumar, to be Additional Judge of the Madras High Court, with effect from the date he assumes charge of his office upto May 6, 2007.

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is also pleased to appoint (i) Shri A. C. Arumuga Perumal Adityan, (ii) Shri P. Murugesan, (iii) Shri Sabapathi Tamilvanan, and (iv) Shri Muttaci Jeyapaul, to be Additional Judges of the Madras High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 29th November 2005

No. 14016/33/2002-UTS-II—In supersession of this Ministry's Notification of even number dated 25th November 2005, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has accepted the technical resignation tendered by Shri Vaibhav Bajaj, DANIPS Probationer with effect from afternoon of 31st December 2005, so that he revert back to his substantive parent service, i.e. Custom Appraiser (Non-Expert Direct Recruit).

VIKRAM DEV DUTT, Dy. Secy.

New Delhi, the 4th January 2006

No. A-32013/08/2005-Ad.I—The President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of CSS Cadre of Ministry of Home Affairs and officiating as Under Secretaries on ad hoc basis in the Ministry of Home Affairs and its Cadre units, to the Grade-I of CSS (Under Secretary) on regular basis as per details below:-

Name of Officer	Seniority assigned in Grade I of CSS as per DoPT's OM	Deemed date of Appointment to Grade I of CSS	Present posting
-----------------	---	--	-----------------

SELECT LIST 1997

(S/Shri)

Moti Lal	10	01.07.1997	DoL
Rajneesh Tingal	12	01.07.1997	MHA
Sanjiv Kumar Jindal	14	01.07.1997	MHA
S. Ramanan	52	0.07.1997	DoL
Ramesh Kumar	57	01.07.1997	MHA
Daya Nand Kataria	59	01.07.1997	MHA

SELECT LIST 1998

Shishoo Twickly	11	01.07.1998	D.o.J.
-----------------	----	------------	--------

SELECT LIST 1999

Ms. Rupali Banerjee Singh	2	01.07.1999	MHA
Inder Jeet Sindwani	29	01.07.1999	MHA

SELECT LIST 2000

Girija Nand Singh	14	01.07.2000	MHA
Surinder Pal Singh	16	01.07.2000	MHA
Diwaker Madan	28	01.07.2000	MHA
Om Prakash Sharma	51	01.07.2000	MHA
Munish Kumar Girdhar	53	01.07.2000	MHA
Subhash Chand Sharma	62	01.07.2000	MHA
Jagdish Chander Bain	65	01.07.2000	MHA

2. The appointment of the above officers to the post of Under Secretary from the above four Select Lists shall be subject to the final decision in the civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri R. K. Ojha and Ms. Preeti Srivastava vs. Union of India and others.

3. These appointments may be deemed to have been made effective w.e.f. 01/07/1997, 01/07/1998, 01/07/1999 and 01/07/2000 respectively for the purpose of approved service and for fixation of their pay as Under Secretary on a notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date the officers were so appointed to the post of Under Secretary.

4. The officers would be entitled to arrears on account of refixation of pay from the dates of their actual appointment to the post of Under Secretary ordered centrally by the DoPT. In addition, these officers shall also be entitled to exercise their option for fixation of pay as provided under the provisions of FR 22. However, such officers who were promoted as ad hoc Under Secretaries prior to the 1st July of their Select List Year and had availed of the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option. The option is to be exercised within 30 days from the date of issue of these orders.

5. Reference DoPT OM No. 4/10/2003-CS.I dated 14/11/2005.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 4th January 2006

No. 24014/34/99-IPS-II.—The President is pleased to accept the unconditional request for resignation tendered by Shri Atul Singh, IPS (NL:98) w.e.f. the forenoon of 11.11.2005 from the Indian Police Service.

2. Shri Atul Singh, IPS (NL:98) is relieved from the Indian Police Service from the above date.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

The 10 January 2006

No. I-14013/8/2004-IPS.I.—In compliance with the order dated 25.10.2005 of Hon'ble Supreme Court in SLP (C) No. 21617/2005 filed by Shri Ajaib Singh, Union Public Service Commission has on 06.01.2005, approved the following recommendations of the Review Selection Committee, that met on 31.10.2005, to consider the case of Shri Ajaib Singh for promotion to the Indian Police Service of Punjab Cadre for the years 1999 and 2000.

Select List-1999

No change in the recommendations of the Selection Committee that met on 25.01.2002.

Shri Sukhmohinder Singh whose inclusion in the Select List of 1999 was provisional, was subsequently included unconditionally in the Select List of 1999 and appointed to Indian Police Service therefrom vide notification dated 30.09.2005.

Select List-2000

Consequent to this Review, the Select List of 2000 for promotion to the Indian Police Service of Punjab Cadre approved by the Commission on 04.04.2002, will be revised as follows :—

Sl. No.	Name	Date of Birth
0*	Sh. Sukhmohinder Singh	22-09-1946
1.	Sh. Harinder Singh Chahal	01-02-1951
2.	Sh. Surinderpal Singh	14-10-1949
2A@	Sh. Ajaib Singh	14-10-1947
3.	Sh. Lok Nath	15-08-1957

* The officer at S. No. 0 who was included provisionally in the Select Lists of 1999 & 2000 has since been included unconditionally in the said Select lists and has been appointed finally to the IPS from the Select List of 1999. However in the Select List of 2000, has been included in addition to the normal size of the Select List in accordance with the amendment dated 25.07.2000 to the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, as at the time of preparation of the original Select List of 1999, his name was included provisionally.

@ The officer at S. No. 2A has now been included in the Select List provisionally subject to his clearance in the criminal case pending against him.

The officer at S. No. 2A will be adjusted in the Select List of 2000 by creation of a supernumerary post with retrospective effect only, in case he is actually appointed to the IPS within the validity period of the Select List.

This partially modifies this Ministry's notification No. I-14011/18/2001-IPS.I dated 09-04-2002.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

No. I-14011/8/2004-IPS.I.—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7, of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 06.01.2006, approved the Select List of 2004, prepared by the Selection Committee in its meeting, originally held on 17.12.2004 and subsequently re-convened on 11.11.2005, and containing the name of the following State Police Service Officer of Tamil Nadu, towards filling up one substantive vacancy in the IPS Tamil Nadu Cadre during 2004.

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1	Shri J. Bhaskaran	16-06-1959

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

No. I-14011/8/2004-IPS.I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Tamil Nadu Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the cadre of Tamil Nadu under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

Select List-2004

S. No.	Name of the officer	Date of Birth
1	Sh. J. Bhaskaran	16-06-1959

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 22nd December 2005

No. A.32013/1/2005-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint Shri C. A. Subramanian, CSS, as Deputy Secretary in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 5th December, 2005 until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

The 3rd January 2006

No. A.32013/3/2006-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint Shri Pratyush Sinha, IAS (BH : 69), as Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions with effect from the forenoon of 3rd January, 2006, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A.12026/1/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Taneja, Senior Hindi Translator of the CSOLS Cadre as Assistant Director (OL) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- on adhoc basis in this Department w.e.f. the forenoon of 23rd December, 2005 for a period of six months or till the post is filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 3rd January 2006

No. 23012/04/2005-AIS-III.—Ms. Smita Das, appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2000 and borne on the cadre of Andhra Pradesh, has been permitted to change her name from Ms. Smita Das to Ms. Smita Sabharwal. She will accordingly be recognized as Ms. Smita Sabharwal for all official purposes.

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 5th January 2006

CORRIGENDUM

No. 14015/25/2001-AIS(I).—The date of birth of Sh. C. N. Dalvi appearing at Sl. No. 2 of this Department's Notification No. 14015/25/2001-AIS(I)-A dated 16th August, 2002 may be read as 18.03.1958 instead of 18.03.1957.

JAGAN LAI, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 16th December 2005

No. 2005. (F.No. A-19013/3/2003-Ad.IA).—In pursuance of the Cadre Administration Section, Department of Expenditure's O.M. No. A.32022/2/2004-CAS dated 15.12.2005, the President is pleased to appoint Shri R. K. Masand, PPS of CSSS as Sr. Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Department of Revenue in the scale of pay of Rs. 12000—16500/- with effect from 12.12.2005 to 30.6.2006 or till the post is filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier.

2. Ad-hoc promotion of Shri R. K. Masand to the post of Senior Principal Private Secretary shall not confer on him

any right to continue in the post indefinitely or to claim any seniority in the grade of Sr. PPS.

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 30th December 2005

No. A. 12011/23/2005-Admn. II.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/21/2005-CS.II dated 21.12.2005, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries as Principal Private Secretaries in the pay scale of Rs. 10000-325-15,200/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis w.e.f. 26.12.2005 (FN) for the period upto 30.6.2006 or till the post is filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier :—

1. Sh. Gian Chand

2. Sh. P. J. Thomas

2. The ad-hoc promotion of above officers shall not confer on them any claim for regular appointment or the right to continue indefinitely in the grade of Principal Private Secretary of CSSS. The service rendered by them on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade or for eligibility for promotion to the next higher grade and they will be reverted as and when Select List persons become available.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

No. A.12011/23/2005-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri R. Pradeep Kumar, Private Secretary of the CSSS Cadre of Ministry of Science & Technology as Principal Private Secretary in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis w.e.f. 26.12.2005 (FN) for the period upto 30.6.2006 or till the post is filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion of above officer shall not confer on him any claim for regular appointment or the right to continue indefinitely in the grade of Principal Private Secretary of CSSS. The service rendered by him on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade or for eligibility for promotion to the next higher grade and he will be reverted as and when Select List persons become available.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 29th December 2005

No. A-19011/255/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri D. P. Sehrawat, a regular Principal Private Secretary of CSSS in the Ministry of Labour & Employment as Sr. Principal Private Secretary in Banking Division of

Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, on ad-hoc basis for the period from 10th October, 2005 to 31.12.2005 or till the post is filled up on a regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The promotion of Shri D. P. Sehrawat to the post of Sr. PPS is purely on ad-hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 4th January 2006

No. A.32013/1/2005-Ad.II—The President is pleased to appoint Shri A. K. Kapoor, Senior Analyst in the Staff Inspection Unit, Department of Expenditure, Ministry of Finance to the post of Joint Director in the scale of Rs. 12000-16500/- on regular promotion basis w. e. f. the forenoon of 23.12.2005. and until further orders.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 29th December 2005

No. 1 (11)/2004-Expl.—The President is pleased to appoint the following Controllers of Explosives as Deputy Chief Controllers of Explosives in the Petroleum and Explosives Safety Organisation in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- on regular basis, with effect from the dates mentioned against their names, and until further orders—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment
1	2	3
	(S/Shri)	
1.	T. R. Thomas	07.01.2004
2.	D. Vijayan	23.03.2004
3.	S. Sargunaraman	07.01.2004
4.	S. Bhattacharya	07.01.2004
5.	S. C. Maiti	07.01.2004
6.	A. V. Subba Rao	07.01.2004
7.	P. K. Mukhopadhyay	07.01.2004
8.	P. C. Srivastava	07.01.2004
9.	A. Bhattacharya	07.01.2004
10.	A. Loganathan	11.02.2004
11.	P. M. Bheley	07.01.2004
12.	Shambhu Prasad	07.01.2004

1	2	3
	(S/Shri)	
13.	J. Tripathi	07.01.2004
14.	Kailash Kumar	07.01.2004
15.	R. C. Kaul	07.01.2004
16.	S. Kamal	19.03.2004
17.	D. J. Roy	07.01.2004
18.	G. M. Reddy	07.01.2004
19.	B. Rengasamy	06.02.2004
20.	Anoop Kumar	07.01.2004
21.	S. Sen	16.11.2005

JAI SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 02nd January 2006

No. A-19011/8/2002-Estt.—The President is pleased to appoint Shri M. S. Srinivasan IAS (TN:71), presently Special Secretary in this Ministry as Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas with effect from the forenoon of 1st January 2006.

RAVI CAPOOR, Director.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 2nd January 2006

No. 12/6/2004-ASO.—On attaining the age of superannuation, Shri P. C. Parakh, IAS (AP:69) retired from Government Service w. e. f. 31st December 2005 (AN) Shri P. C. Parakh also relinquished charge of the post of Secretary in Ministry of Coal w. e. f. 31.12.2005 (AN).

A. K. JYOTISHI, Director.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 23rd December 2005

No. A. 32022/02/2005-Admn.I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 12th July, 05, the President is pleased to extend the term of appointment of the following Assistants of CSS in the Ministry of Science and Technology, as Section Officer [Ad-hoc] in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in the Central Secretariat Service Cadre of Ministry of Science and Technology from 1st January, 2006 (F. N) until further orders or until regular candidates in Section Officers' Grade are available, whichever is earlier:—

- (i) Smt. Madhu Bala Mehrotra
- (ii) Shri S. P. Choudhary
- (iii) Shri M. R. Rohilla
- (iv) Shri R. N. Dhanjal (DBT)
- (v) Shri Ramji Lal
- (vi) Shri Lakshman Ram

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer is Grade.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

New Delhi-110016, the 30th December 2005

No. A. 32011/03/03-Admn.I(A).—The President is pleased to retire Shri Surya Prakash, Section Officer from the Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31st December, 2005 (AN).

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 3rd January 2006

No. A-38018/02/2004-Admn.—The President is pleased to retire Sh. Suresh Chandra Nistandra, Scientist 'G', Department of Scientific and Industrial Research from the Government service on attaining the age of superannuation on 31.12.2005 (AN).

SRINIBAS PRADHAN, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 27th December 2005

No. A. 19011/33/2004-IFS.I—The President is pleased to appoint Shri R. K. Goel, an Officer belonging to 1977 batch of AGMUT Cadre of Indian Forest Service, to the post of Additional Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun on the afternoon of 24th October, 2005 for a period of five years.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 28th December 2005

No.A-19011/14/98-IFS.I—The President is pleased to appoint Shri J. P. Mishra, an officer belonging to 1992 batch of AGMUT Cadre of Indian Forest Service, to the post of Assistant Inspector General of Forest in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 19th December 2005 for a period of four years and until further order.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 26th December 2005

No. A. 12025/02/2003-Estt.III—In pursuance of this Ministry's order of even number dated the 20th December, 2005, Shri B. G. Sharma, Sub-Editor in the Ministry of Health & Family Welfare, assumed charge of the post of Assistant

Editor (E) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in this Ministry on regular promotion basis with effect from the forenoon of 21st December 2005.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

New Delhi, the 28th December 2005

No. A. 31013/4/2005-CHS.V—The President is pleased to appoint substantively Dr. Nalini, Assistant Professor, Obst. & Gynae. in the Specialist Grade of Teaching Sub cadre of the Central Health Services with effect from 19.07.2003

P. K. CHAKRABARTI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 23rd December 2005

No. A. 12025/215/2004-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Karthikeyan P. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs.8,000-275-13,500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 18.7.2005 until further orders. Dr. Karthikeyan P. is posted as Medical Officer under Port Health Organisation, Mandapam (Tamil Nadu).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 3rd January 2006

No. A. 12025/181/2004-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Praphulla Chandra Prabhakar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 12.7.2005 until further orders. Dr. Praphulla Chandra Prabhakar is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 9th January 2006

No. A. 12025/137/9-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Narendra Kumar to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 in a temporary capacity with effect from the forenoon of 21st September, 1994 until further orders. Dr. Narendra Kumar is posted as Medical Officer under Ministry of Labour (Labour Welfare Organisation, Bhilwara Region, Rajasthan).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 10th January 2006

No. A.32012/1/2005-CHS.I—Consequent on their promotion to the post of Chief Medical Officer, the following Officers belonging to the General Duty Medical Officer Sub-Cadre of the Central Health Service relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer and assumed the charge of the post of Chief Medical Officer on the dates indicated against their names in the concerned organisations as indicated below :—

Sl. No.	Name of the Officer	Organisation	Date of Relinquishment of Charge as SMO	Date of Assumption of Charge as CMO
1.	Dr. Prashant Singh	GNCT, Delhi	21.09.03(FN)	21.09.03(FN)
2.	Dr. Shiv Raj Singh	GNCT, Delhi	21.09.03(FN)	21.09.03(FN)
3.	Dr. Sudhir Prasad	GNCT, Delhi	21.09.03(FN)	21.09.03(FN)
4.	Dr. (Ms) Sudha Murria	GNCT, Delhi	21.09.03(FN)	21.09.03(FN)
5.	Dr. Satish Chandra	GNCT, Delhi	21.09.03(FN)	21.09.03(FN)
6.	Dr. Raj Mohan Trivedi	GNCT, Delhi	21.09.03(FN)	21.09.03(FN)
7.	Dr. Surendra Singh	GNCT, Delhi	21.09.03(FN)	21.09.03(FN)
8.	Dr. (Mrs.) Manju Atrey	CGHS, Delhi	20.09.03(AN)	21.09.03(FN)

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A.32012/2/2005-CHS.I—Consequent on their promotion to the post of Chief Medical Officer, the following Officers belonging to the General Duty Medical Officer Sub-Cadre of the Central Health Service relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer and assumed the charge of the post of Chief Medical Officer on the dates indicated against their respective names in the concerned organisations as indicated below :—

Sl. No.	Name of the Officer	Organisation	Date of Relinquishment of Charge as SMO	Date of Assumption of Charge as CMO
1.	Dr. (Mrs) Jyotsna Bharti	GNCT, Delhi	20.7.04(FN)	20.7.04(FN)
2.	Dr. (Mrs) Suman Singal nee Goel	GNCT, Delhi	20.7.04(FN)	20.7.04(FN)
3.	Dr. Sher Bahadur Jangpangi	GNCT, Delhi	4.09.04(FN)	4.09.04(FN)
4.	Dr. (Ms) ZSK Marak	GNCT, Delhi	1.09.04(FN)	1.09.04(FN)
5.	Dr. Hari Krishna Sensua	CGHS, Delhi	24.07.04(FN)	24.07.04(FN)
6.	Dr. Amit Suri	CGHS, Delhi	20.7.04(FN)	20.7.04(FN)
7.	Dr. Prasantu V. Tenjaria	CGHS, Delhi	20.7.04(FN)	20.7.04(FN)
8.	Dr. (Mrs) Anamita Chatterjee	CGHS, Delhi	19.7.04(AN)	20.7.04(FN)
9.	Dr. (Ms) Deepika Sachdeva	CGHS, Delhi	20.7.04(FN)	20.7.04(FN)
10.	Dr. Anil Chaudhary	Dr. RML Hospital	21.9.03(FN)	21.9.03(FN)
11.	Dr. (Mrs) Sneh Jayant	Dr. RML Hospital	20.7.04(FN)	20.7.04(FN)

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/155/2004-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ram Pratap Beniwal to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 7th July, 2005 and post him as a Medical Officer in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi until further orders.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 3rd January 2006

No. A-38012/5/2005-Admn. I—Shri Shiv Bhagwan, Director Admn, retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31.12.2005 (AN).

MOHAN LAL, Dy. Dir. Admn. (ML)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 30th November 2005

No. 27-2626/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Pandey, IIS (85) as Director in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of 30.11.2005 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 27th December 2005

No. 12022/11/2005-E.I.—The President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of the following Principal Private Secretaries borne on the cadre of Department of Agriculture & Cooperation with effect from 1.1.2006 upto 30.6.2006 or till the regular PPSs become available, or till further orders, whichever is earlier :—

- (i) Sh. Sunil Kumar Kathuria
- (ii) Sh. Satish Kumar Gupta

2. The continuance of ad-hoc promotion of the above officers to the post of PPS is purely ad-hoc and shall not confer any right on them to continue in the posts indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

K. D. UPRETI, Dy. Secy.

The 2nd January 2006

No. 19011/427/2005-E.II.—On attaining the age of superannuation, Shri Babu Ram, a regular Assistant Director (Manures) and working as Assistant Commissioner (INM) on ad-hoc basis, in the Department of Agriculture & Cooperation retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.12.2005.

K. D. UPRETI, Dy. Secy.

New Delhi, the 30th December 2005

No. A-19012/6/2005-EA.—The President is pleased to appoint Dr. S. M. Jharwal, an Higher Administrative Grade (HAG) Officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Economic and Statistical Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, with effect from the forenoon of 11th November, 2005, in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/-.

RAJ KUMAR, Under Secy.

No. A-19012/7/2005-EA.—The President is pleased to appoint Shri R. Viswanathan, a Senior Administrative Grade

(SAG) officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Adviser in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, with effect from the forenoon of the 11th November, 2005, in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/-.

RAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 3rd January 2006

No. 12023/10/2000-EV.—The President is pleased to appoint Dr. Shashi Kumar Bhatia, Senior Scientist (Horticulture), CCS Haryana Agricultural University, Hissai as Additional Commissioner (Horticulture-Fruit) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Department of Agriculture & Cooperation on deputation basis for a period of two years with effect from 1.12.2005 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi, the 26th December 2005

No. A-12025/6/99-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. Premanshu Dandapat as Assistant Commissioner (Animal Quarantine) on the basis of recommendation by the Union Public Service Commission in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 21st December 2005 in Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries until further orders.

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 28th December 2005

No. A-18011/72/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Raj Pal, (IES : 1986) as Director in the Ministry of Small Scale Industries with effect from the forenoon of 14th December, 2005 until further orders.

P. S. VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 19th October 2005

No. A-12022/8/2003-Estt.—On recommendation for inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service for the year 2003 (Departmental Exam Quota) based on the result of the Section Officers' Limited Departmental Competitive Examination, 2003 conducted by the Union Public Service Commission and on his nomination to this Ministry by the Department of Personnel and Training, the President is pleased to appoint Shri Amit Pankaj (Rank No. 27), substantive Assistant of the Central Secretariat Service Cadre of Ministry of

Commerce & Industry, to the Section Officers' Grade (Group 'B', Gazetted, Ministerial) of Central Secretariat Service Cadre of the Ministry of Social Justice and Empowerment in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 26th September, 2005.

2. Shri Pankaj will be on trial for a period of two years from the date of his appointment.

3. The appointment of Shri Pankaj to the grade of Section Officer shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors Vs Union of India & Ors, before the Hon'ble High Court of Delhi.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-12022/8/2003-Estt.—On recommendation for inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service for the year 2003 (Departmental Exam Quota) based on the result of the Section Officers' Limited Departmental Competitive Examination, 2003 conducted by the Union Public Service Commission and on his nomination to this Ministry by the Department of Personnel and Training, the President is pleased to appoint Shri Amit Pankaj (Rank No. 27), substantive Assistant of the Central Secretariat Service, Cadre of Ministry of Commerce & Industry, to the Section Officers' Grade (Group 'B', Gazetted, Ministerial) of Central Secretariat Service Cadre of the Ministry of Social Justice and Empowerment in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 26th September, 2005.

2. Shri Pankaj will be on trial for a period of two years from the date of his appointment.

3. The appointment of Shri Pankaj to the grade of Section Officer shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors Vs Union of India & Ors, before the Hon'ble High Court of Delhi.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 10th November 2005

No.A.-12025(1)/2/2005-Estt.(Part).—In continuation of this Ministry's Notification No. A-12025 (1)/2/96- Estt. dated 23.11.2004, the President is pleased to extend the term of appointment of Dr. (Ms.) Madhumala Chattopadhyay, substantive Research Officer (PREM) of this Ministry to the post of Senior Research Officer in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- (General Central Service, Group 'A', Gazetted) in the PREM Division of this Ministry on ad-hoc basis for the period w.e.f. 09.11.2005 to 8.5.2006, until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will not confer on her any claim for regular appointment to the post of Senior Research Officer or to the seniority of that post.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No.A.-12025(1)/1/95-Estt.(Part II).—In continuation of this Ministry's Notification No. A-12025 (1)/1/95- Estt.(Part I) dated 18 July, 2005, the President is pleased to extend the term of appointment of Smt. P. Rajwanshi, substantive Senior Research Investigator in the PREM Division of the Ministry of Social Justice and Empowerment, to the post of Research Officer in that Division in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- (General Central Service, Group 'A', Gazetted) on adhoc basis for the period w.e.f. 31.10.2005 to 30.4.2006, or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will not confer on her any claim for regular appointment to the post of Research Officer (PREM) or to the seniority of that post.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 21st November 2005

No. A-12022/2/2005-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel and Training's OM No. 4/8/2005-EO (SM-I) dated 18.10.2005, the President is pleased to appoint Shri G.N Pegu, IAS (OR:75), as Joint Secretary in the Ministry of Social Justice and Empowerment on his lateral transfer from the National Commission for Safai Karamcharis, w.e.f. 24.10.2005 (A.N.) until further orders.

L.C. MAHRRA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 29th December 2005

No-12034/2/2004-Estt. (TA).—The notification of even number dated 23.12.2005 in regard to relieving Sh. Yeshi Tsering, IAS (AM:83) from the post of Private Secretary to Minister for Tribal Affairs and DONER with effect from 01.01.2006 (AN) and granting him leave from 2.1.2006 to 21.01.2006 is hereby cancelled.

ANIL KAKRIA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 18th October 2005

No.A-32014/9/2005-Admn.I.—Consquent upon their inclusion in the Select List (Seniority Quota) of Grade 'A&B' (Merged) of CSSS cadre of the Department of Telecommunications for the years 2002&2003, the President is pleased to appoint the following Stenographer Grade 'C' borne on the CSSS cadre of this Department as Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the same Department in the pay scale of

Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 30.09.2005 and until further orders:-

1. Shri Rebadhar Chhadaguli SL Year-2002
2. Shri B. Venugopala Rao SL Year-2002
3. Shri S. Anbarasan SL Year-2002
4. Shri Gopi Chand SL Year-2003

2. These officers will be on trial for a period of two years.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy. (Admn. I)

The 29th November 2005

No.A-32014/1.2004-Admn.I.—The President is pleased to permit the following Stenographers Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications to officiate as Private Secretary [Stenographer Grade 'A&B' (Merged)] on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs.6,500-200-10,500/- in the cadre of Department of Telecommunications for a period of 3 months as indicated against each or till the availability of regular Private Secretary [Stenographer Grade 'A&B' (Merged)] or until further orders, whichever is earlier.

Sl. No.	Name of the Officer	Period
1.	Smt. Veena Verma	01.10.2005 to 31.12.2005
2.	Shri R.K. Sharma	01.10.2005 to 31.12.2005

2. The above appointments are purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officers for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade [Stenographer Grade 'A&B' (Merged)].

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy. (Admn. I)

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 30th December 2005

No.4(362)/88-Pers.I.—On attaining the age of superannuation, Dr. P.N. Gupta, Scientist 'G' (Emp. Code No.95) in the Department of Information Technology will be retiring from service with effect from the afternoon of 31.12.2005.

GIRISH SAHAI, Dy. Director.

No.4(378)/88-Pers.I.—On attaining the age of superannuation, Shri V.K. Bhasin, Scientist 'F' Emp. Code No.156) in the Department of Information Technology will be retiring from Government service with effect from the afternoon of 31.12.2005.

GIRISH SAHAI, Dy. Director.

The 02nd January 2006

No. 2(5)/2001-P.I.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 04.01.2005, the term of

deputation of Shri Vinod Kumar Ahuja, Assistant Vigilance Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- (non-functional scale) in the Department of Information Technology is extended for a further period of two years on the existing terms & conditions with effect from 28.01.2006 or until further orders, whichever is earlier.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 02nd January 2006

No. 2-3/2002-Admn.—The President is pleased to appoint the undermentioned Assistants of Central Secretariat Service of the cadre of Department of Posts as Section Officers on ad-hoc basis in the same cadre in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with immediate effect for a period of six months, or till regular officers become available, whichever is earlier :—

1. Smt. Santosh Sharma.
2. Shri Chander Mohan.
3. Shri Prem Raj.

2. The above appointment will not confer any claim on the officers for regular appointment and the ad-hoc service rendered will not count for the purpose of regularization or seniority etc. in the grade.

G. P. PILLAI, Asstt. Dir. General (Admn.)

The 03rd January 2006

No. 3-5/2005-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/21/2005-CS.II dated 21.12.2005, the President is pleased to appoint Shri R. K. Mangal, Private Secretary in the cadre of Ministry of Social Justice and Empowerment as Principal Private Secretary of CSSS in Department of Posts in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 30.12.2005 (A.N.) on ad-hoc basis for the period upto 30.06.2006 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer on the officer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G. P. PILLAI, Asstt. Dir. General (Admn.)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 02nd January 2006

No. A-1201/9/2005-IWT—In exercise of power conferred by Sub-Section (3) of Section 3 of the Inland Waterways

Authority of India Act 1985 (82 of 1985), the Central Government appoints Shri Rahul Sarin, IAS (JH : 74) to the post of Chairman, Inland Waterways Authority of India, in the rank and pay of Additional Secretary w.e.f. 14.11.2005 (F.N.) until further orders.

SUSHEEL KUMAR, Jt. Secy.

New Delhi-110001, the 03rd January 2006

No. A-19011/1/06-Estt.—The President is pleased to appoint Shri A.K. Mohapatra, IAS (HP : 71) as Secretary, Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, with effect from the forenoon of 02.01.2006 until further orders.

S. K. SHAHI, Under Secy.

No. A-38012/5/2005/Estt.—Shri D. T. Joseph, IAS (MH : 68), Secretary Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, on attaining the age of superannuation, has retired from Government service w.e.f. 31.12.2005 (AN).

S. K. SHAHI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 23rd December 2005

No. A-12021/1/2005-E.I.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2000 of Grade-I (Under Secretary) of CSS in terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/10/2003-CS.I dated 14.11.2005, the President is pleased to appoint the Shri V.O. Koshy, an officer of Central Secretariat Service (CSL No. 3915) who retired from Government Service while working as Under Secretary (In-situ) in this Department to Grade-I of CSS (Under Secretary) on regular basis from 1.7.2000.

2. His appointment to Grade-I of CSS (Under Secretary) on regular basis shall be deemed to have been effective from 1.7.2000 for the purposes of approved service and for fixation of his pay as Under Secretary on a notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date the officer is so appointed to the post of Under Secretary.

3. His appointment to Grade-I of CSS (Under Secretary) shall be subject to final decision in the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri R. K. Ojha and Ms. Preeti Srivastava Vs. Union of India and Others and Union of India Vs. Vijay Kumar & Others.

A. P. PADHI, Under Secy.

No. A-12021/1/2005-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year 1998 of

Grade-I (Under Secretary) of CSS in terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/10/2003-CS.I dated 14.11.2005, the President is pleased to appoint the following officers of the Department of Road Transport & Highways working as Under Secretary (in-situ/ad-hoc) to Grade-I of CSS (Under Secretary) on regular basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in order of their seniority mentioned in the said Select List of 1998, irrespective of the actual dates of their appointment to Grade-I :—

Sl. No.	Name	Deemed date of appointment	Seniority assigned in Grade-I of CSS as per DOP&T O.M.No. 4/10/2003- CS.I dated 14.11.2005
1.	Dr. R. K. Agrawal (CSL No. 3325)	1.7.1998	07/1998
2.	Shri S. K. Sharma (CSL No. 3846)	1.7.1998	29/1998

2. The appointments of the above officers on regular basis shall be deemed to have been effective from 1.7.1998 for the purposes of approved service and for fixation of their pay as Under Secretary on a notional basis, the actual benefits, however, would be available only from the date the officers are so appointed to the post of Under Secretary.

3. The above officers would be entitled to arrears on accounts of re-fixation of pay from the dates of their actual appointment to the post of Under Secretary ordered centrally by the Department of Personnel and Training. In addition, these officers shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as provided under the provision of FR-22. However, such officers who were promoted as ad-hoc Under Secretary prior to the 1st July of their Select List year and had availed of the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option.

4. The appointment of above officers to Grade-I of CSS (Under Secretary) shall be subject to final decision in the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri R. K. Ojha and Ms. Preeti Srivastava Vs. Union of India and Others and Union of India Vs. Vijay Kumar & Others.

A. P. PADHI, Under Secy.

New Delhi, the 03rd January 2006

No. A-19011/12/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Choudhary [Junior Administrative Grade Officer of Indian Economic Service] as Deputy Adviser in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in Ministry of Shipping, Road Transport and Highways w.e.f. 09.12.2005 (FN).

A. K. AGGARWAL, Under Secy.

New Delhi, the 03rd January 2006

No. RW/NH-12012/04/2002-PIC/E-II (B)—In continuation to this Ministry's Notification of even number dated 13th September, 2005, the President is pleased to extend the appointment of Shri Nirmaljit Singh, Chief Engineer, Central Engineering Service (Roads) Group 'A' of this Department as Member (Technical) in National Highways Authority of India on deputation basis for a period up to 31st March, 2006 or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

B. N. MISHRA, Under Secy.

The 05th January 2006

No. A-32013/6/2004-E.II.—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Shri V. Velayutham, Chief Engineer, as Additional Director General in the Department

of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways for a further period of six months beyond 26.01.2006 or until further orders, whichever is earlier, subject to the orders of the Hon'ble Delhi High Court in this behalf.

B. N. MISHRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 02nd January 2006

No. DOD/44-Estt/142/95.—On attaining the age of superannuation Dr. V. Sampath, Scientist 'G', Department of Ocean Development in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- has retired from Government service with effect from the afternoon of 31st December 2005.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.